



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 263]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 27, 1979/आषाढ़ 6, 1901

No. 263]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 27, 1979/ASADHA 6, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 27 जून, 1979

का० प्रा० 365 (प्र) :—बिहार से राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री प्रणव चटर्जी की पदावधि के अवनति से पूर्व मृत्यु हो जाने के कारण राज्य सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए तारीख 19 जुलाई, 1979 (बृहस्पतिवार) से पूर्व, उक्त अधिनियम के धोर तद्धीन बनाए गए नियमों और प्रादेशों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/रा०सं०-बिहार/2/79 (1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th June, 1979

S.O. 365(E).—Whereas a vacancy has occurred in the Council of States due to the death of Shri Prana Chatterjee, a member elected to the Council of State from Bihar, before the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Bihar to elect, in accordance with the provisions of the said Act and

of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 19th July, 1979 (Thursday).

[No. 100/CS-BR/2/79(1)]

का० प्रा० 368 (प्र) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-बिहार/2/79(1), तारीख 27 जून, 1979 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में :—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम 4 जुलाई, 1979 तारीख (बुधवार)

(ख) नामनिर्देशनों की संकीर्षा की तारीख 5 जुलाई, 1979 (बृहस्पतिवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम 7 जुलाई, 1979 तारीख (शनिवार)

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, 18 जुलाई, 1979 को मतदान होगा; तथा (सोमवार)

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त 19 जुलाई, 1979 कर दिया जाएगा। (बृहस्पतिवार)

एतद्वारा नियत करता हूँ।

सं० 100/रा० सं०-बिहार/2/79 (2)]

S.O. 366(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance

of its notification No. 100/CS-BR-/1/79(1) dated 27th June, 1979 :—

- (a) 4th July, 1979 (Wednesday), as the last date for making nominations ;
- (b) 5th July, 1979 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations ;
- (c) 7th July, 1979 (Saturday), as the last date for withdrawal of candidatures ;
- (d) 16th July, 1979 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken ; and
- (e) 19th July, 1979 (Thursday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-BR/2/79(2)]

का० प्रा० 367 (अ) —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं-बिहार/2/79(1), तारीख 27 जून, 1979 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 11.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो सों, मतदान होगा ।

[सं० 100/रा० सं-बिहार/2/79(3)]

S.O. 367(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 11.00 a.m. to 4.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-BR/2/79(1), dated 27th June, 1979.

[No. 100/CS-BR/2/79(3)]

का० प्रा० 368 (अ) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के उपश्रृंखला के अनुसरण में निर्वाचन आयोग, बिहार सरकार के परामर्श से, अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं-बिहार/2/79(1) तारीख 27 जून, 1979 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है।

[सं० 100/रा० सं-बिहार/2/79(4)]

S.O. 368(E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Bihar hereby designates the Secretary, Bihar Vidhan Sabha Sachivalaya, as the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-BR/2/79(1), dated 27th June, 1979.

[No. 100/CS-BR/2/79(4)]

का० प्रा० 369 (अ) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं-बिहार/2/79(1), तारीख 27 जून, 1979 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की उसके कुर्यातों के पालन में सहायता करने के लिए श्री जगदीशवरी प्रसाद वर्मा, उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय को नियुक्ति करता है।

[सं० 100/रा० सं-बिहार/2/79(5)]

श्री० नागसुब्रमण्यन, सचिव

S.O. 369(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints Shri Jagdishwari Prasad Verma, Deputy Secretary, Bihar Vidhan Sabha Sachivalaya, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-BR/2/79(1), dated 27th June, 1979, in the performance of his functions.

[No. 100/CS-BR/2/79(5)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.